



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 08/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तथा प्रथम जुलाई, 2017 से संशोधित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 13 के सामने, खाना (3) में, "परन्तु इस छूट के (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू होगी,-" शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षर के स्थान पर, "परन्तु इस छूट के प्रविष्टि (ख) में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,-" शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) क्रम संख्या 55 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"खाद्य, फाईबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य समरूप उत्पाद या कृषि उत्पादों के लिए पौधों की खेती और अश्वों के पालन-पोषण को छोड़कर पशुओं के सभी जीवन रूपों के पालन-पोषण के संबंध में जोब कार्य के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना।"

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।